



September 10, 2022

To,
The General Manager,
Deptt of Corporate Services,
BSE Limited,
P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001

To,
The Vice President,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051

Equity Scrip code : 543249
Debt Scrip Code : 973928

Scrip Symbol: TARC

Sub.: Newspaper Publication

Dear Sir,

In compliance with Regulation 30 and 51 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper advertisement as published in Hindi and English edition of Business Standard.

Kindly take the same on record.

Yours Faithfully

For TARC Limited

Amit Narayan
Amit Narayan
Company Secretary
A20094



Encl.: As above

U.P. State Road Transport Corporation
Parivahan Bhavan, Tehri Kothi, 6 M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)
No. : 1563 FA/22-105FA/16 Dated : 09 Sep, 2022

Short Term-e-TENDER NOTICE
FOR RELEASING THROUGH REG. POST, e-portal & U.P. State Road Transport Corporation website
WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

SUB: - Short Term e-TENDER NOTICE FOR THE ISSUANCE OF TERM GROUP INSURANCE POLICY FOR REGULAR EMPLOYEES APPOINTED/REAPPOINTED W.E.F. 01-04-2022 OR LEFT OVER EMPLOYEES

U.P. State Road Transport Corporation hereby invite e-tenders for the ISSUANCE OF TERM GROUP INSURANCE POLICY OF Rs. 4,00,000.00 (PER PERSON) FOR APPROX 3738 ± EMPLOYEES for one year from insurers that are empanelled with INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (IRDA) and having a minimum of five (5) years of TERM GROUP INSURANCE business experience in India.

Prescribed tender forms containing all relevant details, terms and conditions can be downloaded from website of Govt. e-portal etender.up.nic.in.

DESCRIPTION	DATE AND TIME
Availability & e-submission of e-Tender on e-portal	w.e.f. 10.09.2022 to 16.09.2022 up to 15:00 Hrs.
Opening of e-Tender document	16-09-2022 at 16:00 Hrs.

Detailed Bill of quantity, eligibility for participating in tender, other terms and conditions of the tender and calendar/timing of the tender may be seen on Govt. e-portal etender.up.nic.in

Please do visit etender.up.nic.in, from time to time before last date of submission of tender for any possible amendment/condition/addendum.

For any queries/clarification regarding submission of e-tender vendors may call on following helpline numbers of NIC :- (1) 0522-2286808 (2) 0522-2286809 (3) 0522-4130303 (4) 0522-2289813

Finance Controller

Tripura State Cooperative Bank Ltd.
Head Office :: Agartala
Short Notice Inviting Tender

The Bank invites sealed quotations from Reputed National Level Recruitment Agency for conducting recruitment of TSCB Personnel. Interested bidders may download the details of document from the bank website www.tscbank.nic.in and the last date for submission of bid on or before **26.09.2022** till 02:00 pm.

Sd/-
Managing Director,
Tripura State Cooperative Bank Ltd.

Bank of India
Zonal Office: Delhi NCR Zone, Batra House, Ground Floor, Plot No. 52, Sector-32, Gurugram - 122003
Tel No.: 0124-2388406/412
E-mail: ZO.DelhiNCR@bankofindia.co.in

REQUIREMENT OF PREMISES ON LEASE BASIS

Bank of India requires premises (commercial) for unmentioned Branch on Ground Floor with adequate free parking space.

Branch	District	Category	Place	Carpet Area	Floor
MGF Plaza	Gurugram	Urban	MG Road, Gurugram	1800 Sq. ft.	Ground Floor
Gurugram	Gurugram	Urban	Gurugram	2420 Sq. ft. (Approx)	Ground Floor

Premises owner has to submit proposal at Zonal Office Delhi NCR till **23.09.2022 up to 05:00 PM** at below mentioned address in 2 sealed envelopes, in one envelope Technical details and in another Financial details shall be mentioned.

Envelop No.1 (Technical Details): Approved Map of premises/site by concerned Authority with full details of proposed premises having commercial Title deed. If any documents not submitted then the application will not be considered. Making availability of parking space, availability V self RF(Antenna)/solar panel space on roof of premises and space for generator.

Envelop No. 2 (Financial Details): Financial details of the carpet area with per sqft. rent (inclusive of all liabilities) and lease period options and total period of lease details. All Present and future taxes such as house/property tax and other taxes of the Premises to be borne by owner only.

Both Performa, terms & conditions can be obtained from Bank of India website (URL- www.bankofindia.co.in). Zonal office Delhi NCR address at Batra House, Ground Floor, Plot No.-52 Sector 32, Gurugram, Haryana-122003. Bank reserves right to cancel any proposal or all proposals without disclosing any reasons.

Note: Approved Map of Building along with documents of property owner. If any document missing then Technical bid will be automatically rejected.

Date: 09.09.2022 Zonal Manager, Delhi NCR Zone

FORM-G -INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of the Corporate Debtor	M/s. DQ Entertainment (International) Limited DQEL is an internationally acclaimed animation content creator and service provider and Listed with NSE & BSE. DQEL has produced well known animation content in the form of Television series and Home Videos such as Casper, Iron Man, HIVE, Large Family, etc.
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	13th April 2007
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated/ registered	Register of Companies, Hyderabad (R.O.C., Hyderabad)
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	L92113TG2007PLC053585
5. Address of the registered office and principal (if any) of corporate debtor	844, Aurora Colony, Road No.3, Banjara Hills Hyderabad, TG-500034 IN
6. Insolvency commencement date of the Corporate Debtor	17-06-2022
7. Date of invitation of expression of interest	10-09-2022
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at	Can be obtained by sending email at dqei2022@gmail.com
9. Norms of ineligibility applicable under section 25A are available at	Available on website of IBI and also EOI member can obtain by email. I.e. dqei2022@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	24-09-2022
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	04-10-2022
12. Last date for submission of objections to provisional list	09-10-2022
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	19-10-2022
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	09-10-2022
15. Manner of obtaining request for resolution plan evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible Resolution Applicant (RA) may communicate with RP at address mentioned in serial No. 21 for obtaining Information Memorandum (IM), Evaluation matrix and RFP and any other info.
16. Last date for submission of resolution plans	07-11-2022
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form on the email id dqei2022@gmail.com (password Protection) and by speed post or by hand delivery
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	22-11-2022
19. Name and registration number of the resolution professional	Madhusudhan Rao Goungunta IBI/IRA-001/IR-P00181/2017-18/10360
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	D.No.7-1-285, Flat No. 103, Sri Sai Swarna Sampada Apartments, Balkampet, Sanjeev Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana-500038. madhusr@gmail.com
21. Address and e-mail to be used for correspondence with the resolution professional	D.No.7-1-285, Flat No. 103, Sri Sai Swarna Sampada Apartments, Balkampet, Sanjeev Reddy Nagar, Hyderabad, Telangana-500038. dqei2022@gmail.com
22. Further Details are available at or with	Can be obtained by sending email at dqei2022@gmail.com
23. Date of publication of Form G	10-09-2022

Note: Committee of Creditors (COC) has reserved the right to extend the last date of submission of EOIs).

Sd/- Madhusudhan Rao Goungunta, Deemed Resolution Professional
For M/s. DQ Entertainment (International) Limited
Place : Hyderabad Ph: 9177715558 & 807463502

Date : 10-09-2022
Place : Hyderabad

TARC LIMITED
(Formerly Anant Raj Global Limited)
Registered office: 2nd Floor, C-3, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Tel: 011-41244300, Email: tarc@tarc.in, Website: www.tarc.in

NOTICE FOR HOLDING OF 6th (SIXTH) ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS, INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 6th (Sixth) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of TARC Limited (formerly Anant Raj Global Limited) ("the Company") will be held on **Friday, September 30, 2022 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules made thereunder read with General Circular No. 2/2022 dated 5 May 2022, General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020, General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020 and other applicable Circulars ("Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars') and all applicable laws, to transact the business as set-out in the Notice of the AGM.

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22:

In compliance with the above stated circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 has been sent only through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Company has completed their dispatch on September 08, 2022. Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 is also available on the Company's website at www.tarc.in and on the websites of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Participation in AGM through VC / OAVM:

Members can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only [which is being availed by the Company from NSDL], the details of which are provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Friday, September 23, 2022 may cast their vote electronically. The voting rights shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on the cut off date.

A person who is a member as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Company emailed the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as detailed in the Notice of AGM.

Members are requested to read carefully the instruction for attending the AGM and e-voting in the Notice of AGM.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM shall be transacted through voting by electronic means only i.e. by remote e-voting or e-voting at the AGM. The remote e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-voting: 9.00 A.M. (IST) on Tuesday, September 27, 2022
End of remote e-voting : 5.00 P.M. (IST) on Thursday, September 29, 2022

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by the NSDL upon expiry of the aforesaid period. Members may note that once the vote on the resolution is cast, shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries / grievance related to the facility for e-voting, Members may write to admin@skyinfra.com or cs@tarc.in or evoting@nsdl.co.in or call on toll free no. 18001020990 and 1800224430.

The Company has appointed Mr. Pawan Kumar Mishra (FCS -4305, C.P.No. 16222) of P. K. Mishra & Associates as scrutineer to scrutinize the e-voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 26, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive)** for annual closure.

For TARC Limited
Sd/-
Amit Narayan
Company Secretary
Date : September 08, 2022
Place : New Delhi
ACS 20094

Aadhar Housing Finance Ltd.
Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069
Roorkee Branch : Kh No. 490 Shop-3 Shree Ram Palace Malviya Chowk Dehradun Road Roorkee-247667.(UK).
Authorised officer: Manish Srivastava : 9335515905

PROPERTY FOR SALE UNDER PROVISIONS OF SARFAESI ACT, 2002 THROUGH PRIVATE TREATY

Whereas the Authorised Officer, Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) has taken the Possession u/s 13(4) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The SARFAESI Act, 2002) of the property ("the Secured Asset") given below The Authorised Officer has received offer of Sale from some interested party against the above mentioned Secured Asset under the SARFAESI Act for recovery of the Secured Debt. Now, the Authorised Officer is hereby giving the Notice to Sale of the above said property through Private Treaty in terms of rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Details of the Account are as follows:

Loan App. No./ Branch	Name of the Borrower/ Co-Borrowers	Demand Notice Date & Amount	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD)	Total Outstanding Loan Amount as on date 08-09-2022	Description of the Secured Asset
(App No. 00300785/ Roorkee Branch)	Mohd Nadeem (Borrower), Gulista (Co-Borrower)	12-07-2021 & ₹ 6,36,351/-	₹ 4,40,000/- (Rs. Four Lakh Fourty Thousand only)	₹ 44,000/- (Rs. Fourty Four Thousand only)	₹ 5,81,363/- (Rs. Five Lakh Eighty One Thousand Three Hundred sixty Three only)	All that part & parcel of property bearing, Plot No. 14 A, Kh. No. 419 & 420, Anshika Vihar Colony Dara Milkana Bairon, Saharanpur, (U.P.) 247001. Boundaries : East : 14 - Balaknath colony, West: 14:20 Wide Rasta, North: 44: Plot No.14, South : 44: Plot No.15

The Authorised officer will hold auction for sale of the Secured Asset on 'As is where is Basis', 'As is what is basis' and 'Whatever there is basis'. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the said property. The Authorised Officer reserves the right to accept or reject the offer without assigning any reason whatsoever and sale will be subject to confirmation by Secured Creditor. On the acceptance of offer of proposed buyer, he/she is required to deposit 25% of accepted price inclusive adjustment of Earnest Money Balance immediately and the balance amount shall be paid by the purchaser within 15 (fifteen) days from date of acceptance of Offer by the Secured Creditor. The proposed buyer is to note that in case of failure of payment of balance amount by him/her within the time specified, the amount already deposited shall stand forfeited and property will be resold accordingly. This is **15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002** is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s) that the above described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and to the amount due to Aadhar Housing Finance Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

If the Borrower(s), co-borrower(s) has any buyer who is ready to purchase the mortgage property/secured asset at price above the given reserve price of Rs.4,40,000/- then Borrower(s), Co-borrower(s) must intimate to AHFL on or before 26-09-2022 AHFL shall give preference to him. If Borrower(s), co-borrower(s) fails to intimate on or before 26-09-2022 the AHFL will proceed sale of property at above given reserve price of Rs.4,40,000/-.

The Date of Auction is fixed for 26-09-2022

Place : Saharanpur,
Date : 09-09-2022

(Authorised Officer)
For Aadhar Housing Finance Limited

Indian Overseas Bank ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH
Rachna Building, 4th Floor, 2, Rajendra Place, Delhi-110008 Phone: 011-25758124 Email: iob1997@iob.in

FOR SALE OF IMMOVABLE/MOVABLE PROPERTIES (Under Proviso to Rule 8(6)/ 6(2) of Security Interest (Enforcement) Rules)
Sale of immovable property/ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No.54 of 2002)

whereas, the Authorized Officer of Indian Overseas Bank has taken possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Section 13(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS" for realization of Bank's dues plus interest & costs as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property/ies. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal <https://ibapi.in>

Sr. No.	Names of Borrowers Names of Guarantors	Amount Due To Indian Overseas Bank	Description of the Immovable Property Known Encumbrances If Any	Type of Possession	Reserve Price		Date of Auction Last Date for submission of Bid	Contact Person Mobile No.
					Earnest Money Deposit Bid Increment amount	Last Date for submission of Bid		
1.	M/s AKC Corporation (Prop. Shri Adhiraj Kumar) & M/s Czar International (Prop. Abhinav Batra) 1. Mr. Adhiraj Kumar 2. Mr. Abhinav Batra 3. Mrs. Malli W/o Late Sri Rajni Kant	Rs 75,82,513.00 for A/c AKC Corporation and Rs 53,32,260.00 For M/s Czar International with further interest & costs	All part and parcel of freehold Residential Property situated at MCD No.22-A, Entire Ground Floor, without roof/terrace rights Bazar Lane, Bhogal, New Delhi-110014, Admeasuring 83.50 Sq Yards, owned by Late Shri Rajni Kant S/o Late Shri Ram Harit. Boundaries of property: North: Other property, South: Other property East: Other property, West: Gali (E Bikray Property ID IOBAK222A) (The property is under physical possession of the Bank)	PHYSICAL	Rs. 39,10,000/- Rs. 3,91,000/- Rs.10,000/-	27.09.2022 26.09.2022	Mr K. Singtsit 9678130436	
2.	M/s Apline Minmetals India Pvt Ltd 1. Shri Gagan Shukla S/O Dr. Ashok Shukla 2. Smt Kalyani Shukla W/O Shri Gagan Shukla	Rs. 1,25,83,04,356/- as on 14.10.2012 with further interest & costs	*Lot1- Commercial property situated at FC01, Second Floor, Ansal Plaza, Palam Vihar, Gurgaon owned by Gagan Shukla. Area 2928 sq.ft. *Lot2- Commercial property situated at FC02, Second Floor, Ansal Plaza, Palam Vihar, Gurgaon owned by Gagan Shukla. Area 2767 sq.ft. *Lot3- Commercial property situated at FC03, Second Floor, Ansal Plaza, Palam Vihar, Gurgaon owned by Gagan Shukla. Area 7078 sq.ft. *Note- All the properties mentioned in Lot 1, Lot 2 & Lot 3 are combined at the same floor, hence it is suggested to purchase all the three properties by the same buyer.	Physical	Lot 1 - Rs. 150.51 Lakh Lot 2 - Rs. 142.23 Lakh Lot 3 - Rs. 363.82 Lakh Lot 1 - Rs. 15.05 Lakh Lot 2 - Rs. 14.22 Lakh Lot 3 - Rs. 36.38 Lakh Rs. 1,00,000/-	27.09.2022 26.09.2022	Ms. Kanchan Gupta 8373903438	
3.	M/s Design Shed (Prop. Shri Nitin Kant) and M/s S.R. Enterprises (Prop. Jitendra Kumar) 1. Mr. Nitin Kant S/o late Sh. Rajni Kant 2. Mrs. Malli W/o Late Sh. Rajni Kant	Rs. 64,22,656/- for M/s Design Shed and Rs. 58,74,998.00/- for M/s S.R Enterprises as on 31.08.2021 with further interest & costs	All that part and parcel of Freehold Residential Property situated at MCD No.22-A, Entire First Floor, without roof/terrace rights Bazar Lane, Bhogal, New Delhi-110014 admeasuring 83.50 sq. Yards (Khasra No. 357) in the name of Sh. Nitin Kant S/o Late Shri Ram Harit. Boundaries of property; North: Other property, South: Other property, East: Other property, West: Gali (E Bikray Property ID IOBADESIGN22A) (The property is under physical possession of the Bank)	Physical	Rs. 32,90,000/- Rs.3,29,000/- Rs. 10,000/-	27.09.2022 26.09.2022	Mr K. Singtsit 9678130436	
4.	M/s J R Diamonds Through Mr. Vishal Vaish (Proprietor) 1. Mrs. Priya Vaish 2. Smt. Bharti Devi 3. Shri. Vishal Vaish	Rs. 4,38,31,830 as on 17.01.2019 with further interest and cost	Lot No 1-freehold property 2nd floor shop private no 4, property municipal no 2578 & 2579, Gali no 5, Naiwala Estate, Beadonpura Karol Bagh New Delhi-110005 Boundaries of the property- North-Gali No.05, South-Other's property, East-Property no.2580, West- property No.2577, owned by Smt Bharti Devi w/o Shri Kailash chand pandey, Area-Super area 115 sq.ft. at 2nd Floor (property ID- IOBA1997JR1) Lot No. 2-Lease hold property 3rd floor shop private no 2(Without roof Right), property municipal no 2523, Block M, ward no. XVI, Gali No 7 & 8, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi-110005, Boundaries of the Property-North-Gali No.07, South-Gali No.08, East-Property no.2524, West- property No.2522, owned by Shri Vishal Vaish S/O Gauri Shanker, Area-Superarea 450 sq.ft. at 3rd Floor (property ID- IOBA1997JR3)	PHYSICAL	Lot No. 1- Rs. 8,28,000/- Lot No. 2- Rs. 34,02,000/- Minimum Bid is (Reserve price + 1Bid Multiplier) Lot No. 1: Rs. 82,800/- Lot No. 2 : Rs. 3,40,200/- Rs. 20,000/- For Each Lot Bid Increment	27.09.2022 26.09.2022	Mr. Chandan Kumar 9431791722	
5.	1. Mr. Manoj Kumar 2. Mrs. Sapna Arora Nil	Rs. 1,05,82,640.00 as on 26.05.2022 with further interest & costs	Lease hold Residential Apartment no. 110 on 1st floor, having super area measuring 1645.00 sq.ft. & terrace area 120.00 sq.ft. in group housing residential complex known as "Mahagan Maple" on plot no. 26, Block-F, Sector 50, Noida, Boundaries of the property - North- Corridor, South-Open, East- Open, West- Flat No.111, owned by Mr. Manoj Kumar & Mrs. Sapna Arora. (Property ID-IOBA1997AR0A)	SYMBOLIC	Rs. 97,97000/- Rs. 9,79,700/- Rs. 25,000/-	27.09.2022 26.09.2022	Mr. Chandan Kumar 9431791722	
6.	M/s Natkath Kanhaiya Jewellers P.Ltd. 1. Mr. Rakesh Kishan Lal Kohli 2. Mr. Shakti Soni	Rs. 9,69,29,237 as on 07.06.2018 with further interest & costs	All the part and parcel of Leasehold commercial Property at Municipal No. 2149, Shop at basement & ground Floor without roof rights in Naiwala, Ward No.XVI, Gali no.60,block-J, Build on admeasuring plot area 42 Sq yards, constructed area 756 Sq.ft. situated at Karol Bagh, New Delhi-110005 Delhi owned by Rakesh Kishan Lal Kohli, Boundaries :North-Property no 2140/59, South-Gali no 60, East-Property no 2139/59, West-Property no. 2148/59 E-bikray Property id- IOBA1997natkath	PHYSICAL	Rs 90,90,000 Lakh Minimum Bid is (Reserve price + 1Bid Multiplier) Rs. 9,09,000 Lakhs Rs. 20,000/-	27.09.2022 26.09.2022	Mr. Jeet Singh 9838833933	
7.	M/s VSNK Precision and Automotive Components Pvt. Ltd 1. Shri Venus Kapoor 2. Smr Nidhi Kapoor 3. Smr. Kiran Kapoor 4. Shri Subhash Kapoor	Rs. 1,54,14,118.12 as on 30.09.2017 with further interest & costs	Freehold Industrial property at 27/42, Laxmi Rattan Compound, Near Hardware Chowk, NIT, Faridabad, Haryana,121001; plot area 260 Sq Yards, owned by Mrs. Kiran Kapoor, Mrs. Nidhi Kapoor and Mr. Subhash Kapoor. Boundry by: North: Raod, South: Property no.27/13 East: Property no. 27/41, West: 27/43 (Property ID- IOBA1997VSNK) (Property is under symbolic possession of the bank)	SYMBOLIC	Rs. 88,89,000/- Rs. 8,89,000/- Rs. 10,000/-	27.09.2022 26.09.2022	Mr K. Singtsit 9678130436	
8.	M/s C.M.K Jewellers Pvt. Ltd. Mr. Manoj Kumar Soni, Mr. Vikas Verma and Mrs. Reena Verma W/o Mr. Vikas Verma	Rs. 9,59,22,619.69 as on 18.02.2018 with further interest & costs	Lot 1. Lease hold commercial shop Built up at 1st Floor rear side, without roof right comprised in southern portion toward gali no 7 of property bearing Municipal No. 2542 (new) on plot/khasra No 283/2 & 284 Ward No. XVI, Block- M, Built up 240 Sq. Ft. 22.25 Sq Metre) built over a plot area is 107sq yards. Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi-110005. Boundaries: North- remaining portion of property of property no 2542, South-gali no 7 and entrance, East-property no 2532, West-property no 2541 (Property ID-IOBA1997CMK1) Lot 2: lease hold Built up three shops (3 abutting each other) at 1st floor comprised in property bearing Municipal no. 2593 (new) khasra no 258 ward no xvii Block- M, Gali No 4 Total super Area 258 sq.ft. built over a plot measuring 111 Sq Yards Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi-110005. Boundaries: north -gali no 4 and entrance, South-gali no 5, East-property no 2594/4, West- property no 2593 part (Property ID-IOBA1997CMK2) Lot 3: Built up Entire Second Floor, without roof rights comprised in property bearing Municipal no. 3147 (built on plot no 123) Ward No. XVI, Block- P, Gali no 33-34 Built up Entire Area 450 sq.ft. over a plot measuring 50 Sq Yards basti Reghar Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi-110005. Boundaries: north -gali no 33, South-gali no 34, East-property no 3148, West- property no 3146 (Property ID-IOBA1997CMK3) (All properties are under physical possession of the bank)	PHYSICAL	Lot 1 - Rs. 38.40 Lakh Lot 2 - Rs. 41.20 Lakh Lot 3- Rs. 43.20 Lakh Lot 1 - Rs. 3,84,000 Lot 2 - Rs. 4,12,000 Lot 3- Rs. 4,32,000 Rs. 10,000/- For Each Lot Bid Increment	27.09.2022 26.09.2022	Mr. Jeet Singh 9838833933	
9.	M/s Digi Exports Venture Pvt. Ltd. Mr. Amarjit Singh Kalra Mrs. Sujit Kaur Kalra Mrs Sarjinder Kaur Kalra	Rs. 14,24,47,455.74 as on 31.05.2019 with further interest & costs	Lot1: Property located at Ground floor, Eastern Side(Without roof rights) on plot bearing no.WZ-14A Village Tihar, colony known as Bindra Market, Sant Pura Tilak Nagar, New Delhi 110018 in the name of M/S Digi Export Venture Pvt Ltd. Area 100 Sq.yards. Boundaries - North-Road, South-plot no WZ-15B & WZ-15C, East-plot no .WZ-13A, West-plot no.WZ-14B (E-bikray property id- IOBA1997D14A1) Lot 2: Property located at First floor, Eastern Side, (Without roof rights) on plot bearing no. WZ-14A, Village Tihar, colony known as Bindra Market, Sant Pura Tilak Nagar, New Delhi 110018 in the name of M/S Digi Export Venture Pvt Ltd. Area 900 Sq. Ft. Boundaries- North-Road, South-plot no WZ-15B & WZ-15C, East-plot no .WZ-13A, West-plot no.WZ-14B (E-bikray property id- IOBA1997D14A2) Lot 3: Vacant & unbuild residential plot no. 171, Block C-10, Yamuna Vihar, Delhi in the name of Digi Export venture Pvt. Ltd Area 69,720 Sq. Mtrs. Boundaries-North-Road, South-service road, East-property no 170, West-property no 172 (E-bikray property id- IOBA1997D14171Y) (All properties are under Physical Possession of the bank)	PHYSICAL	Lot 1 - Rs. 66.73 Lakh Lot 2 - Rs. 66.00 Lakh Lot 3- Rs. 114.55 Lakh Lot 1 - Rs. 6,68,000 Lot 2 - Rs. 6,60,000 Lot 3 - Rs. 11,46,000 Rs. 10,000/- For Each Lot Bid Increment	27.09.2022 26.09.2022	Mr. Jeet Singh 9838833933	
10.	M/s Universal Solitaires Pvt. Ltd. 1. Mr. Rakesh Kishan Lal Kohli 2. Mrs. Sheetal Rakesh Kohli 3. Sri. Shakti Soni	Rs. 10,99,46,553 as on 07.05.2019 with further interest & costs	Lot 1: Lease hold commercial shop at 2nd Floor front side, Without Roof Rights bearing municipal no.2542, ward no.XVI, Plot/Khasra No. 283/2 and 284, Gali no.6&7, Block M, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi-110005 in the name of M/s Universal Solitaires Pvt. Ltd, Covered area 198 Sq.Ft., (Property ID-IOBA1997univert1), Boundaries : North- Remaining portion of the property no 2542, South-other property, West-stair case and corridor, East-property no 2541 Lot 2: Lease hold commercial shop on basement property bearing municipal no.2527, plot/Khasra no 286, ward no xvi, block-M,9(abutting gali no.7)GALI No 7, Beadonpura, Karol Bagh, New Delhi-110005 in the name of M/s Universal Solitaires Pvt. Ltd. (Property ID-IOBA1997univert2) Boundaries : North- gali no 6, South- Gali no 7, West- other property, East- other property	PHYSICAL	Lot 1 - Rs. 28,30,000/- Lot 2 - Rs. 31,00,000/- Minimum Bid is (Reserve price + 1 Bid Multiplier) Lot 1 - Rs. 2,83,000/- Lot 2 - Rs. 3,10,000/- Rs. 20,000/- For Each Lot Bid Increment	27.09.2022 26.09.2022	Mr. Jeet Singh 9838833933	
11.	M/s Shree Hari Overseas 1. Mrs. Pallavi Gupta 2. Mr. Deepak Gupta 3. Mr. Alok Gupta 4. Mrs. Sharda Gupta	Rs. 31,16,13,794 as on 31.12.2018 with further interest & costs	Freehold Commercial property situated at Unit No. G-24, Ground floor, NDM-2 Building, Netaji Subhash Place, Plot No.D-1,2,3 Wazirpur District Centre, Pitampura, New Delhi-34 Owned by Mrs. Pallavi Gupta. Area: 560.4					

